KALYANI COMMERCIALS LIMITED

Regd off: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, New Delhi-110042

CIN: L65923DL1985PLC021453

E-mail: <u>kalyanicommercialslimited@gmail.com</u> Website-www.kalyanicommercialsltd.com

Ph. 011-43063223, 011-47060223

Ref: 1102/KCL/NSE/2022-23

11th February, 2023

To, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block- G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051

Subject: Newspaper Publication of Un-Audited Financial Results for the Quarter & Nine-Months ended on 31st December, 2022.

Dear Sir(s),

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the Standalone Un-Audited financial results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the Quarter & Nine-Months ended on 31st December, 2022 published by the Company in following newspaper(s):

- 1. Financial Express (English Language) dated 11th February, 2023.
- 2. Jansatta (Hindi language) dated 11th February, 2023.

You are requested to take note of the same.

Thanking You,

For Kalyani Commercials Limited

Sourabh Agarwal (Whole Time Director and CFO)

DIN: 02168346

Office Address: BG-223, Sanjay Gandhi Transport

Nagar, GT Kamal Road, New Delhi-110042

Mahaan Foods Limited

Regd. Office: M-19, 1st Floor, M-Block Market, Greater Kailash-II New Delhi 110048 Tel: 011-43107200, Fax: 011-43107250, E-mail: info@mahaanfoods.com, Website: www.mahaanfoods.com CIN: L15419DL1987PLC350285

_				100		s, Unless Othe	
S.	Particulars		Quarter Ende			ths Ended	Year Ended
No.		31.12.2022 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited
1.	Total income from operations	22.53	14.63	13.33	75.39	35.20	52.17
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	14.33	7.77	5.96	49.94	12.19	20.19
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.33	7.77	5.96	49,94	12.19	20.19
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.81	(0.45)	7.80	37.94	12.71	15.41
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10.81	(0.45)	7.80	37.94	12.71	15.41
6.	Equity Share Capital	350.07	350.07	350.07	350.07	350.07	350.07
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	102		-	100	1473.82
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.31 0.31	(0.01) (0.01)	0.22 0.22	0.11 0.11	0.03 0.03	0.44 0.44

- The above financial results have been reviewed by the audit committee and taken on record by the board of directors in its
- meeting held on 10th February, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the company's website www.mahaanfoods.com. For Mahaan Foods Limited

Place: New Delhi Date: 10/02/2023

Sanjeev Goyal Managing Director DIN:00221099

Sizemasters Technology Limited CIN:-L74110DL1991PLC046120

Registered Office: S. No. 4873/5, SF, Phatak Namak, Hauz Qazi, Delhi, Central Delhi -110006, INDIA Phone No.: 011-23234316, Email:sizemaster 1999@yahoo.com, info@sizemasters.net/mewatzinc@gmail.com, Website: www.mewatzinc.com/www.sizemasters.in

3714	udited Financial Results for the Quarter and N					Lakh except p	
Sr.	Destination .		uarter Ended				Year Ender
No.	Particulars	31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)		31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
0	Revenue From operations	2.26	2.63		2.26	47.04	83.81
II.	Other Income	4.43	1056	53	4.43	*****	10000
II	Total Income (I+II)	6.69	100	20	6.69	47.04	83.81
٧	EXPENSES	200000			260000	1000000	55300
	Cost of materials consumed	200		#01		120	
	Purchases of Stock-in-Trade	1.01	973	88	1.01	47.12	47.14
	Changes in inventories of finished goods, Stock-in -					THE COMMON TO	100000000
	Trade and work in-progress	2.0	0.50	2.0	20	(11.71)	14.86
	Employee benefits expense	2.45	0.60	1.05	3.98	3.30	4.83
	Finance costs	30/03/50	8553	50	82850	650	8
	Depreciation and amortization expenses	0.00			0.00	1.4	
	Other expenses	8.89	3.03	0.96	13.44	4.48	14.23
	Total expenses (IV)	12.35	3.63	2.01	18.43	43.19	81.06
V	Profit/(loss) before exceptional items and tax (I-IV)	(5.66)	(3.63)	(2.01)	(11.74)	3.85	2.75
VI	Exceptional Items	7.5	-		7.0	1.0	-
VII	Profit/ (loss) after exceptions items and tax(V+VI)	(5.66)	(3.63)	(2.01)	(11.74)	3.85	2.75
VIII	Tax expense:	2417/0/5/2010	200000000000000000000000000000000000000	1000000000000	200000000	100.00	17900000
	(1) Current tax	STATE OF THE PARTY	0.64	(0.52)	808000	1.00	0.75
	(2) Deferred tax	(2.95)	(0.02)	*/	(2.97)		
X	Profit (Loss) for the period from continuing	10000000000	9008-8000	10001799880	000000000	80880	7,000,000
(1000)	operations (VII-VIII)	(2.71)	(4.25)	(1.49)	(8.77)	2.85	2.00
X	Profit/(loss) from discontinued operations	- 20	1327	-32	- 20	120	12
XI	Tax expenses of discontinued operations	*3	1000	53	46	8 8 22	
XII	Profit/(loss) from Discontinued operations						
90200	(after tax) (X-XI)	50	800	53	50	1000	
XIII	Profit/(loss) for the period (IX+XII)	(2.71)	(4.25)	(1.49)	(8.77)	2.85	2.00
XIV	Other Comprehensive Income	0337500000	1400000000	139633390	000000000	hares	G8000
	A. (i) Items that will not be reclassifled to profit or loss (ii) Income tax relating to items that will not be	#6	-	#3	+8	546	34
	reclassified to profit or loss	¥35	3.00	*0	40	13410	9
	B. (i) Items that will be reclassified to profit or loss (ii) Income tax relating to items that will be	18	35%	8	10	150	
10.00	reclassified to profit or loss	- 30		- 22	100	•	
XV.	Total Comprehensive Income for the period						
	(XIII+XIV)Comprising Profit (Loss) and Other.	100000000	2222237	78249555	2002000	8888	7833
10000	comprehensive Income for the period)	(2.71)	(4.25)	(1.49)	(8.77)	2.85	2.00
XVI	Earnings per equity share (for continuing operation):	West (X20500	WaxeS	Harris S	2000	100000
	(1) Basic	(0.05)	(0.11)	(0.04)	(0.16)	0.07	0.05
50,500	(2) Diluted	(0.05)	(0.11)	(0.04)	(0.16)	0.07	0.05
XVII	Earnings per equity share (for discontinued operation):		100000000000000000000000000000000000000	***********			1000000
	(1) Basic	- 20	100	23	4.0	10.00	
	(2) Diluted	100	850	- 8	18	510	22
XVIII	Earning per equity share (for discontinued &						
	continuing operation)						
	(1) Basic	(0.05)	(0.11)	(0.04)	(0.16)	0.07	0.05
	(2) Diluted	(0.05)	(0.11)	(0.04)	(0.16)	0.07	0.05

- Notes: The above financial results for quarter and nine months ended December 31, 2022 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors ("Board") in their respective meetings held on February 10, 2023.
- The Statutory Auditors of the Company have carried out a "Limited Review" of the results for the quarter and nine months ended December 31, 2022. 3. The unaudited financial statements has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the companies Act 2013 and the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (LODR).
- 4. The name of the Company has been changed from "MEWAT ZINC LIMITED" to "SIZEMASTERS TECHNOLOGY LIMITED" on the MCA portal vide new Certificate of Incorporation dated November 24, 2022 and the same was changed on the BSE portal vide Notice no. 20230116-21 with effect
- from January 20, 2023. 5. Below mentioned is the disclosure of turnover from the new business activity i.e. Manufacturing and Trading of Gauges required to be provided
- seperately in the gurterly/annually results for a period of three years from the date of change in name of the company, as per the undertaking submitted with the BSE while making an application for change of name of the Company.

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2022	Nine Months Ended 31.12.2022
1	Revenue From Operations	2.26	2.26
2	Total Expenses	12.35	12.35
3	Profit Before Tax	(5.66)	(5.66)
4	Tax Expeses	(2.95)	(2.95)
5	Profit After Tax	(2.71)	(2.71)

- 6. During the guarter ended December 31, 2022, the Company has allotted 60,00,000 equity shares of the face value of Rs. 10 each fully paid up on preferential basis to Promotors and Promotor group and Public category of the shareholders at an issue price of Rs. 10 per equity share aggregating
- 7. In Accordance with the Indian Accounting Standard ("Ind AS") 108- viz. "Operating Segments", the operations of the Company relate to only one Segment i.e. Manufacturing and Trading of Guages. 8. Previous period/year figure have been regrouped/reclassified wherever necessary, to correspond with the current period's classification/ disclosure.
- Place: PUNE Date: February 10, 2023 Managing Director (DIN: 09537969)

B J DUPLEX BOARDS LIMITED CIN: L21090DL1995PLC066281

Regd. Off: H. NO. 83, T/F CHAWRI BAZAR, DELHI 110006 Email Id: admin@anandpulp.com; Website: https://www.bjduplexboard.com/ Un-Audited Standalone Financial Results for the guarter (In lakhs) and nine months ended on December 31, 2022

	Particulars	Quarter ended	9 months ended	Corresponding quarter ended in the previous year	Previous Year ended
900	AV.		(31/12/2022) Un-audited	(31/12/2021) Un-audited	(31/03/2022) Audited
1	Total income from operations	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.)	-0.33	-0.91	-0.14	-1,33
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.33	-0.91	-0.14	-1.33
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.33	-0.91	-0.14	-1.33
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)		-0.91	-0.14	-1.33
6	Equity Share Capital	37.66	37.66	37.66	37.66
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of previous year as on 31.03.2022)	0.00	0.00	0.00	-110.41
8	Earnings per equity share (for discontinued & continuing operations): (1) Basic (2) Diluted	-0.01 -0.01	-0.02 -0.02	-0.003 -0.003	-0.03 -0.03

Notes:

Place : Delhi

Date: 10.02.2023

- The above is an extract of the detailed format of standalone Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2022 filed with the Stock Exchange (BSE) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results for the quarter ended on December 31, 2022 is available on the Stock Exchanges website viz. www.bseindia.com and on Company's website viz. https://www.bjduplexboard.com/.
- The above Un-audited financial results for the quarter ended on December 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors in their meeting held on February 10, 2023. For BJ DUPLEX BOARDS LIMITED

SATYA BHUSHAN JAIN (WHOLETIME DIRECTOR) DIN: 00106272

LIGHT MICROFINANCE PVT LTD

CIN- U67120DL1994PTC216764

Registered office: 308, Aggarwal Tower, Plot no.-2, Sector - 5, Dwarka, New Delhi- 110075 Corporate Office: 310, Pinnacle Business Park, Corporate Road, Prahladnagar, Ahmedabad - 380015. Office/ Fax: +91-79-40050059 | info@lightmicrofinance.com, www.lightmicrofinance.com Unaudited Financial Result for the guarter ended December 31,2022

200		Quarter Er	Year Ended as at		
S. No.	Particulars	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022	
NO.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	8,472.73	4,704.78	16,331.3	
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	2,362.85	863.04	(1,337.82	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	2,362.85	863.04	(1,337.82	
4	Net Profit/(Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	1804.73	622.75	(1009.7	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1798.57	602.08	(1092.3	
6	Paid up Equity Share Capital	10779.68	4,587.74	4,587.7	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2006.25	(84.77)	(128.69	
8	Securities Premium Account	18731.54	5,536.54	5,531.6	
9	Net worth	31517.47	10,039.50	9,990.6	
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	1,11,578.45	39,250.44	84,654.3	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	N	
12	Debt Equity Ratio	3.52	3.91	8.4	
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	7.20 2.37	2.49 1.39	(4.03 (4.03	
14	Capital Redemption Reserve	Nil	Nil	N	
15	Debenture Redemption Reserve	Nil	Nil	N	
16	Debt Service Coverage Ratio		Not Applicable		
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicat	

is applicable. NOTES:

a) The above results for the quarter ended December 31st 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on February 10, 2023

b) The financial results of the company have been prepared in accordance with Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Ad 2013(the Act) read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

For and on behalf of Light Microfinance Private Limited

Deepak Amin (Managing Director)

KALYANI COMMERCIALS LIMITED

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine-Months Ended 31st December, 2022

Regd. Office:- BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, Delhi-110042, Email: kalyanicommercialslimited@gmail.com, website:www.kalyanicommercialsltd.com

Contact No. 011-43063223. 011-47060223: CIN: L65923DL1985PLC021453

(Rs. In Lakhs)

Date: 10.02.2023

Place : Ahmedabad

Sr. No.	Particulars		Quarter Ended	1	Nine Months	Ended	Year Ended	
NO.		31/12/2022 (Un-Audited)	30/09/2022 (Un-Audited)	31/12/2021 (Un-Audited)	31/12/2022 (Un-Audited)	31/12/2021 (Un-Audited)	31/03/2022 (Audited)	
1	Total Income from operations	8525.15	7838.02	6327.49	21484.61	13857.54	22966.45	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	166.89	97.20	152.33	326.81	289.64	269.12	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	166.89	97.20	152.33	326.81	349.78	329.26	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	124.99	71.24	127.63	243.05	273.58	248.80	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	124.99	71.24	127.63	243.05	273.58	587.14	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
7	Other Equity	1,116.69	1,116.69	823.14	1,116.69	823.14	1,116.69	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):						V	
	Basic:	12.50	7.12	12.76	24.31	27.36	24.88	
	Diluted:	12.50	7.12	12.76	24.31	27.36	24.88	

- 1. These financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under.
- 2. The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 09th February, 2023. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same.
- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods. Indian Accounting Standards are applicable on the Company.
- 1- The Company has reported Segment wise reporting as per Accounting Standard (AS-17). The Company has reported the following Business Segments:
- Automobile -Other
- The Company was registered u/s 45-IA of the RBI Act 1934 as an NBFC Company besides its other business activities. The company has voluntarily made application for surrendering its NBFC status to the RBI vide company letter dated 28.06.2019. Further, As per the communication held with RBI and the RBI email dated 18 December 2020, RBI directed the Company to submit certain compliance applicable on a NBFC Company thereby stating to hold the status of NBFC till the application for surrender of Certificate of Registration (COR) is accepted and taken on records of RBI. Hence, the company resolved to continue with the status of NBFC. However, since, the company is not doing any business of NBFC and continued to run its normal business activities i.e. trading in Commercial Vehicle and Petroleum dealership of BPCL, so pursuant to this the Company has prepared its financial statements as per Ind AS. The same is not affecting the business activity of the company in any manner including going concern concept. On Behalf of the Board

For Kalyani Commercials Limited Sd/-Sourabh Agarwal (Whole Time Director & CFO) DIN: 02168346

(Rs. in hundreds)

ended in the

12/31/2021

Un-Audited

(766.04)

(766.04)

83583.10

827584.39

(0.001)

Manish Arora

DIN: 00373026

Year to Date | Correspond-

period ended previous year

lugures to

current

(2475.90)

(2475.90)

83583.10

(0.003)

For Newage Marketing Limited

Chairman & Managing Director

12/31/2022 12/31/2022

Un-Audited Un-Audited

NEWAGE MARKETING LTD Regd Off: 59/17, Bahubali Apartments, New Rohtak Road, New Delhi-110005 Email Id: newagemarketing1984@gmail.com; Tel No.: +91 11-28711851 CIN: L51909DL1984PLC018695, Website: www.newagemarketing.in

Statement of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine

Months ended December 31, 2022

ended

(482.49)

(482.49)

83583.10

(0.001)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements

Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock

Particular

Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) from ordinary activities

(after Extraordinary items)

Paid-up Equity Share Capital

Net Profit / (Loss) for the period after tax

Reserves (excluding Revaluation Reserve as

shown in the Balance Sheet of previous year)

Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted

Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted

Exchange websites; www.msei.in

after tax

[in Rupees]

in Rupees!

Place: New Delhi

Date: 10.02.2023

Date: 09/02/2023 Place: New Delhi

Mishka Exim Limited CIN NO.: L51909DL2014PLC270810

On Behalf of Board of Directors

Gopal Zanwar

F-14, First Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara, Delhi-110032, email: mishkaexim@gmail.com

EXTRACT OF	UNAUDITED FINANCIAL	RESULTS FOR THE	QUARTER	AND NINE MONTHS	S ENDED DEC	EMBER 31, 202

022

													. /
	Particulars			С	onsolidated					Stand	alone		
		Quarter Ended 31.12.2022	Quarter Ended 30.09.2022	Quarter Ended 31.12.2021	Nine Months Ended 31.12.2022	Nine Months Ended 31.12.2021	Year Ended 31/03/2020 31.03.2022	Quarter Ended 31.12.2022	Quarter Ended 30.09.2022	Quarter Ended 31.12.2021	Nine Months Ended 31.12.2022	Nine Months Ended 31.12.2021	Year Ended 31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
ì	Total Income from operations(net)	544.63	208.20	427.95	1,189.72	837.70	1,826.06	524.65	208.20	425.83	1,012.56	819.01	1,794.39
ů,	Net Profit /(Loss) before tax(before Exceptional items)	(14.04)	2.37	2.90	(21.15)	(28.19)	(45.40)	(15.40)	2.05	1.42	(22.65)	(29.11)	(41.89)
	Net Profit /(Loss) before tax(after Exceptional items)	(14.04)	2.37	2.90	(21.15)	(28.19)	(45.40)	(15.40)	2.05	1.42	(22.65)	(29.11)	(41.89)
	Net Profit /(Loss) after tax(after Exceptional items)	(14.86)	(0.85)	3.68	(25.20)	(25.87)	0.74	(15.85)	(1.17)	2.20	(26.33)	(26.79)	3.33
200	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising profit/(Loss) for the period after Tax & other comprehensive income after Tax)	(14.86)	(13.17)	3.68	(37.52)	18.55	38.14	(15.85)	(10.60)	2.20	(35.76)	4.80	34.92
	Equity Share Capital(Face Value of Rs.10/-each)	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1,445.00
	Other Equity	-	-	-	-	-	720.73		-	-	-	-	346.17
	Earnings Per Share(of Rs.10 each) not annualised	(0.10)	0.00	0.02	(0.17)	(0.18)	0.01	(0.11)	(0.01)	0.02	(0.18)	(0.19)	0.02

-Basic & Diluted Notes:

Place: Delhi

Date: 10/02/2023

No.

- The above is an extract of detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results is available on www.bseindia.com and www.mishkaexim.com.
- 2. The Unaudited Financial Results have been reviwed by the Audit Committee and approved by the Board Of Directors at the meeting held on Febuary 10,2023.
- 3 The figures of the previous period/year have been regrouped/rearranged wherever necessary to make them comparable with current period's figure.



Managing Director



financialexpress.com

New Delhi

For Mishka Exim Limited

Rajneesh Gupta

(Rs. In Lakhs, Except per share data)

जनसता

11 फरवरी, 2023

9

सम्पात्तया का बिक्रा क लिए सूचना श्री गणेश फायर इक्यूपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) CIN: U29300DL2010PTC204055 पंजीकृत कार्यालयः 6/205, दूसरी मंजिल, दीदार कमर्शियल कॉमप्लेक्स, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर, नई दिल्ली 110015 भारत श्रा प्रभाकर कुमार, पारसमापक

परिसमापक का पताः नं. 1, शिवा एनक्लेव, तीसरी मंजिल, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

दिवालिया एवं ऋण अशोधन संहिता, 2016 के अधीन सम्पत्तियों की बिक्री ई-नीलामी की तारीख एवं समय: 10.03.2023 को अपराहन 02.30 बजे से अपराहन 05.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) ईएमडी की रकम के साथ दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीखः 08.03.2023

दिवालिया तथा ऋण अशोधन संहिता . 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय एनसीएलटी. नई दिल्ली पीठ IV द्वारा आदेश दिनांकित 23 दिसम्बर, 2021 के मार्फत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापन परिसम्पदा के हिस्से के रूप में श्री गणेश फायर इक्युपमेंटस प्राइवेट लिमिटेड की सम्पत्तियों की बिक्री संचालित की जाएगी। परिसमापक द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://ncltauction.auctiontiger.net के जरिए संपादित की जाएगी। बिक्री के लिए सम्पत्तियों तथा आस्तियों का संक्षिप्त विवरणः

रकम रुपये में सम्पत्ति मूल्य रकम हाजीपुर, बिहार में स्थित औद्योगिक इकाई ,03,39,117 10,33,912 1,00,000 प्लॉट नं. डी-4 ई.पी.आई.पी. हाजीपुर, जिला वैशाली-844101 (बिहार) में स्थित भूमि एवं भवन सहित फैक्ट्री इकाई (बी.आई.ए.डी.ए. द्वारा पट्टे पर आवंटित अचल सम्पत्ति) क्षेत्रफल 24,000 वर्ग फीट।

बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते निम्नलिखित हैं: 1. ई-नीलामी "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" तथा "बिना किसी दायित्व के आधार पर" संचालित की जाएगी। बिक्री अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता यानी https://ncltauction.auctiontiger.net के जरिए किसी भी प्रकार की वारंटी तथा मुआवजा पर संचालित जाएगी।

2. आगे के विवरण के लिए कृपया https://ncltauction.auctiontiger.net पर नीलामी बिक्री 3. सम्पत्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा एवं शपथ प्रपत्र, ई-नीलामी

के साधारण नियम एवं शर्तें सम्मिलित परिपुर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। 4. आगे किसी भी के अनुसंधान के लिए इच्छूक व्यक्ति परिसमापक से नीचे उल्लेखित विवरण पर

सम्पर्क कर सकते हैं ई-मेलः prabhakar acs@rediff.com, liq.shriganesh@gmail.com

सम्पर्क नं : 9810011532 प्रभाकर कुमार, परिसमापक

श्री गणेश फायर इक्यूपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड तारीखः 11/02/2023 स्थान : दिल्ली आईबीबीआई पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00774/2018-2019/12373

स्टेशन के पास, मेट्रो पिलर नं. 98 के सामने, पूसा रोड, SOUTH Bank करोल बाग, नई दिल्ली —110005 दूरभाष-011- 45128661 ईमेलः ro1008@sib.co.in सीआईएनः L65191KL1929PLC001017 (नियम 8(6) का परंतुक देखें)

अचल संपत्तियों की निविदा सह नीलामी बिक्री सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का

प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल की बिक्री के लिए निविदा सह नीलामी बिक्री सूचना एतद्दवारा सामान्य तीर पर आम जनता को और विशेष रूप से ऋणकर्ताओं एवं गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति द दक्षिण भारतीय बैंक लिमिटेड, शाखा–मयुर विहार–नई दिल्ली (प्रतिभत लेनदार), गिरवी / प्रभारित है, जिसका प्रतीकात्मक कब्जा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (प्रतिभूत लेनदार)द्वारा 20.10.2022 को लिया गया है, जिसे "जहाँ है जहाँ है", "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है" पर (1) मैसर्स चान्सन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, उधारकर्ता और (2) श्री हरजीत सिंह चांदलोक, (3) श्रीमती दलजीत कौर (4) श्रीमती गुरलीन कौर बिंद्रा,(5) श्री रविंदर सिंह चांडलाक, (6) मैसर्स पिंड पंजाबी होटल्स राजपुरा प्राइवेट लिमिटेड (7) मेसर्स चैनसन कन्वेयन्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गारंटर के रूप में से सीसीबीडी स्विधा के संबंध में (यानी रुपये 10,94,02,151.05) (रुपये दस करोड़ चौरानवे लाख दो हजार एक सौ इक्यावन और पैसा पांच मात्र) तथा कर्जदारों / जमानतदारों मैसर्स चान्सन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती दलजीत कौर और श्री हरजीत सिंह चंडोक से द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, शाखा मयूर विहार-नई दिल्ली, (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के बकायों दलजीत कौर और श्री हरजीत सिंह चंडोक, उधारकर्ताओं के रूप में आवास ऋण सुविधा के संबंध में) 09-02-2023 के अनुसार रु.79,50,051.57 (रुपये उन्न्यासी लाख पचास हजार इक्यावन और पैसा सत्तावन केवल)यानी कुल राशि रु.11,73,52,202.62 (रुपए ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख बावन हजार दो सौ दो और पैसा बासठ मात्र) राशि की वसूली के लिए 28-02-2023 को दोपहर 12:00 बजे साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट नंबर 20 और 21/1, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास, मेट्रो पिलर नंबर 98 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005, में बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. ४,19,00,000.00 (केवल चार करोड़ उन्नीस लाख रुपये) होगा, और बयाना राशि रु. 41,90,000.00 (केवल इकतालीस लाख नब्बे हजार रुपये) होगी।

संपत्ति के मालिक का नाम संपत्ति का विवरणः के लेआउट प्लान, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के भीतर मीराबाग के रूप में जानी जाने वाली कॉलोनी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित लगभग 2700 वर्ग फुट यानी 250.84 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र वाली पूरी तीसरी मंजिल (जमीन के साथ-साथ तीन मंजिला इमारत में) के सभी टुकड़े और अंश जिसमें छत / छज्जा के अधिकार के साथ शीर्ष मेजेनाइन कमरे और संपत्ति संख्या 31में 1/4 अविभाजित भूमि हिस्सेदारी जिसकी माप 400 वर्ग वर्ग गज यानी 334.45 वर्ग मीटर है इसके साथ-साथ आम सुविधाओं, व्यवस्थाओं सुगमता का उपयोग करने का अधिकार और अन्य सभी निर्माण, सुधार, उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले में स्थित सुगमता अधिकार और श्रीमती दलजीत कौर के स्वामित्व में है और अधिक जानकारी बिक्री विलेख संख्या 2320/2009 दिनांक 23-06-2009 बीमाओं के उप रजिस्टार-प्प पंजाबी बाग नई दिल्ली में पूरी तरह से वर्णित है और चौहद्दी : उत्तर की ओर : संपत्ति संख्या 12, पूर्व :संपत्ति संख्या 30, दक्षिणः 45 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः संपत्ति संख्या 32

बिक्री के विस्तुत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, वेबसाइट या www.southindianbank.com में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांकः 10.02.2023 अधिकृत अधिकारी द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली

कल्याणी कमर्शियल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- बीजी-223, संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर, जीटी करनाल रोड, दिल्ली-110042, Email: kalyanicommercialslimited@gmail.com, website:www.kalyanicommercialsltd.com Contact No. 011-43063223, 011-47060223; CIN: L65923DL1985PLC021453

31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के उद्वरित एकीकृत अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

				-			
क्र० सं०	विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त नौ	माही	समाप्त वार्षिक
40		31/12/2022 (अनअंकेक्षित)	30/09/2022 (अनअंकेक्षित)	31/12/2021 (अनअंकेक्षित)	31/12/2022 (अनअंकेक्षित)	31/12/2021 (अनअंकेक्षित)	31/03/2022 (अंकेक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	8525.15	7838.02	6327.49	21484.61	13857.54	22966.45
2	अवधि के निए नेट लाभ/(हानि) (करें, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	166.89	97.20	152.33	326.81	289.64	269.12
3	अवधि के निए नेट लाभ/(हानि) कर से पहले (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	166.89	97.20	152.33	326.81	349.78	329.26
4	अवधि के निए नेट लाभ/(हानि) कर के बाद (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	124.99	71.24	127.63	243.05	273.58	248.80
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (व्यापक लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक एवं अन्य व्यापक आय मिलाकर (कर पश्चात्))	124.99	71.24	127.63	243.05	273.58	587.14
6	चुकता इक्विटी शेयर कैपीटल (सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	अन्य इक्वीटी	1,116.69	1,116.69	823.14	1,116.69	823.14	1,116.69
8	प्रति शेयर आय (रू० 10/- प्रत्येक) परिचालन जारी तथा बंद करने के लिए) :						3
	बेसिक:	12.50	7.12	12.76	24.31	27.36	24.88
	तरल:	12.50	7.12	12.76	24.31	27.36	24.88

1. ये वित्तीय परिणाम कम्पनीज (भारतीय लेखा मानक) नियमन 2015 जैसा कि कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित साथ में पठित जारी प्रसांगिक नियमों के अनुसार तैयार किये गये।

2. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की है एवं निदेशक मंडल की उनकी 09 फरवरी, 2023 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये। उसके लिए कम्पनी के सांवधिक लेखापरीक्षकों ने सामित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान की है।

3. पिछली अवधि के आकडे वर्तमान अवधि के आकडे की पृष्टि के लिए जहाँ भी आवश्यक थे। पूर्नगठित/पूर्नवर्गीकृत किए गये हैं। 4. कम्पनी पर भारतीय लेखा मानक लागू है।

5. कम्पनी के लेखामानक (एएस-17) के अनुसार खंडवार रिपोर्टिंग की है। कम्पनी ने निम्नलिखित व्यावसायिक खंडों की सूचना दी हैः सीमितः ऑटोमोबाइल और अन्य।

6. कम्पनी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा एक एनबीएफसी कम्पनी के रूप में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा के अन्तर्गत पंजीकृत थी। कम्पनी ने इसके पत्र दिनांक 28.06.2019 द्वारा अपनी स्वेच्छा से आरबीआई को सौपनें के लिए आवेदन किया है। पुनः आरबीआई से हुए पत्राचार एवं आरबीआई के ईमेल दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 के अनुसार आरबीआई ने कम्पनी को एक एनबीएफसी कम्पनी पर लागू कुछ अनुपालन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिससे पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के आत्मसम्पर्ण के लिए आवेदन तक एनबीएफसी की स्थिति को बनाये रखने के लिए कहा गया एवं आरबीआई ने स्वीकार एवं रिकार्ड में लिया जाता है। इसलिए कम्पनी ने एनबीएफसी की स्थिति को जारी रखने का संकल्प लिया। फिर भी, चुंकि कम्पनी एनबीएफसी का कोई भी व्यवसाय नहीं कर रही है एवं अपनी सामान्य वाणिज्यिक गतिविधियों को चलाना जारी रखती है, जैसे कर्मिशियल वाहनों की ट्रेडिंग एवं बीपीसीएल की पेट्रालियम डीलरशिप का व्यवसाय कर सकें, ताकि इसके अनुसरण में कम्पनी अपने वित्तीय कथन आईएनडी एएस के अनुसार तैयार का सके। ताकि यह गोईगं कर्सन अवधारणा सहित किसी भी तरह से कम्पनी की व्यवसायिक गतिविधि को प्रभावित नहीं करेगा।

> बोर्ड की ओर से कृते कल्याणी कमर्शियल्स लिमिटेड सौरभ अग्रवाल (पूर्णकालिक निदेशक एवं सीएफओ) DIN: 02168346

(रू० लाखों में)

Date: 09/02/2023 Place: New Delhi

NIVA BUPA HEALTH INSURANCE COMPANY LIMITED

(Formerly known as Max Bupa Health Insurance Company Limited) REGISTRATION NO: 145, DATE OF REGISTRATION WITH IRDAI: FEBRUARY 15, 2010



Financial Results Rs in Lakhs

CNI	Particulars	3	months ended/as a	t	9 months e	9 months ended/as at	
SN	Particulars	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022
1	Premium Income (Gross) (Note 1)	99,296	96,132	66,863	2,73,871	1,91,760	2,80,997
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,220)	250	(4,379)	(2,651)	(14,868)	(19,653)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,220)	250	(4.379)	(2,651)	(14,868)	(19,653)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,220)	250	(4,379)	(2,651)	(14,868)	(19,653)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (Note 2)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Paid up Equity Share Capital	1,51,011	1,46,400	1,40,642	1,51,011	1,40,642	1,40,860
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	33.378	22.892	12,504	33,378	12,504	12,540
8	Securities Premium Account	33.336	22,854	12,501	33,336	12,501	12,511
9	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	25,000	25,000	15,000	25,000	15,000	25,000

Additional Disclosures as required under 52(4) of SEBI (LODR) Regulations 2015

		9 months	Year Ended	
SN	Particulars	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022
1	Debt Equity Ratio (Note 3)	0.32	0.27	0.49
2	Debt Service Coverage Ratio (Note 4)	(0.32)	(70.94)	(29.13)
3	Interest Service Coverage Ratio (Note 5)	(0.32)	(70.94)	(29.13)
4	Outstanding Redeemable Preference Shares (quantity and value)	NA	NA	NA
5	Capital Redemption Reserve/ Debenture Redemption Reserve (Note 6)		9	:90
6	Net Worth (Rs. in Lakhs)	79,102	55,295	50,764
7	Net Profit/(Loss) after Tax (Rs. in Lakhs)	(2,651)	(14,868)	(19,653)
8	Earning Per Share			
	-Basic Earning/ (Loss) per Share	(0.18)	(1.08)	(1.42)
	-Diluted Earning/ (Loss) per Share	(0.18)	(1,08)	(1.41)
9	Current Ratio (Note 7)	0.16	0.15	0.14
10	Long Term Debt to Working Capital (Note 8)	(0.12)	(0.10)	(0.15)
11	Current Liability Ratio (Note 9)	0.91	0.92	0.89
12	Total Debts to Total Assets (Note 10)	0.07	0.06	0.09

Notes:

- Premium Income is gross of reinsurance and net of Goods and Service tax.
- The Indian Accounting Standards (Ind AS) are not applicable to Insurance Companies in India.
- Debt Equity Ratio is calculated as Total Borrowings divided by Net worth. Debt-Service Coverage Ratio is computed as Profit before Interest and Tax divided by Interest expense
- together with principal repayments of long term debt made during the period. Interest-Service Coverage Ratio is computed as Profit before Interest and Tax divided by Interest expense of long term debt.
- In terms of the Companies (specification of definition details) Second Amendment Rules, 2021, w.e.f. April 1, 2021, the Company would no longer be a listed company as defined under Companies Act, 2013. Accordingly, in terms of Rule 18(7)(b)(iv)(B) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules , 2014, as amended vide Ministry of Corporate Affairs notification no G.S.R 574 (E) dated August 16, 2019, the Company is required to create Debenture Redemption Reserve out of the profits available for payment of dividend. The Company will assess the same at the year end March 31, 2023. In view of the seasonality of industry, the financial results for the quarters are not indicative of full year's expected performance.
- Current Ratio is current assets (cash and bank balance and advances & other assets) divided by current liabilities and provisions.

For and on behalf of Board of Directors Krishnan Ramachandran

Managing Director & CEO

(DIN:08719264)

- Long term debt to working capital is computed as Long term debt divided by the working capital (working capital= current asset- current liabilities and provisions).
- Current Liability Ratio is computed as 'current liabilities and provision' divided by total liabilities. Total liability includes borrowings, current liabilities and provisions.
- 10 Total Debts to Total Assets is total borrowings divided by total assets as per balance sheet.
- 11 Credit Rating: CARE A stable.
- 12 As per Clause 52(4) of Chapter V of SEBI (listing obligations and Disclosure requirements) 2015, as amended, ratios such as Bad Debts to Accounts Receivable ratio, Debtors turnover, Inventory turnover, Operating margin and Net Profit margin are not applicable to the company.
- 13 The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listed Obligation and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com) and the Company's website (www.nivabupa.com). For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (NSE) and can be accessed on the NSE website (www.nseindia.com).

Insurance is a subject matter of solicitation. Niva Bupa Health Insurance Company Limited (formerly known as Max Bupa Health Insurance Company Limited) (IRDAI Registration Number 1 45). 'Bupa' and 'HEARTBEAT' logo are registered trademarks of their respective owners and are being used by Niva Bupa Health Insurance Company Limited under license. IRDAI Registration No. 145. Registered Office: C-98. First Floor. Lajpat Nagar. Part 1, New Delhi-110024. Corporate Office: 14th Floor. Capital Cyberscape, Golf Course Extension Road, Sector-59, Gurugram -122011 (Haryana). CIN No. U66000DL2008PLC182918. Customer Helpline No.: 1860-500-8888. Website: www.nivabupa.com.